

APNIC 44 नीति प्रस्ताव के परिणाम

APNIC 44 पर चर्चा किए गए नीति प्रस्तावों के परिणाम

Taichung, Taiwan में APNIC 44 पर सार्वजनिक नीति बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया गया।

प्रस्ताव-116: IPv4 पतों को अंतिम /8 ब्लॉक में स्थानांतरित करने से रोकना

संशोधनों के साथ सर्वसम्मति तक पहुँचते हुए, यह प्रस्ताव लागू किए जाने से पहले अब अंतिम टिप्पणी अवधि में है। APNIC कार्यकारी समिति ने इस प्रस्ताव के अंतिम परिणाम से संभावी रूप से प्रभावित सभी संसाधनों पर पाबंदी लगा दी है। यदि इसे लागू किया जाता है, तो 103/8 ब्लॉक से सम्बन्धित सभी पतों के स्थानांतरण को प्रतिनिधान के बाद पांच वर्षों तक सीमित कर दिया जाएगा।

प्रस्ताव-118: APNIC क्षेत्र में कोई ज़रूरत नहीं संबंधी नीति

IPv4 पतों का स्थानांतरण करते समय आवश्यकता की ज़रूरत को हटाने के इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति नहीं हुई। प्रस्ताव के समर्थन और इसके विरोध में बोलने वाले वक्ताओं में सहमति नहीं हो पाई। अध्यक्ष ने यह पाया कि तीन वक्ता पूरी तरह से प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यदि लेखक प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे सभी टिप्पणियों को ध्यान में रखना होगा और प्रस्ताव का समायोजन करना होगा।

प्रस्ताव-119: अस्थायी स्थानांतरण

पतों के अस्थायी स्थानांतरण की अनुमति देने वाले प्रस्ताव, जो किसी विशिष्ट अवधि के अंत तक स्रोत खाते तक वापिस आ जाएगा, उस पर भी सर्वसम्मति नहीं हुई। अध्यक्ष ने लेखक को चर्चा के दौरान किए सवालों पर विचार करने के लिए कहा क्योंकि कुछ स्पष्टीकरण से उसे ऐसा अच्छा प्रस्ताव रखने में मदद मिल सकती है जिसपर सर्वसम्मति हो सके।

प्रस्ताव-120: अंतिम /8 पूल समापन योजना

अंतिम /8 (103/8) के लिए समापन के बाद की नीति और पूल प्रबंधन पर सहमत होने के इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति नहीं हुई। निष्पक्षता और प्रतीक्षा सूची के प्रबंधन को लेकर हुई चर्चा से सर्वश्रेष्ठ समाधान के बारे में कई सवाल उठाए गए। अध्यक्ष ने प्रस्ताव मेलिंग लिस्ट को वापिस भेजा और समुदाय को आमंत्रित किया कि वे लेखक को टिप्पणियाँ और सुझाव दें। लेखक ने यह दर्शाया कि वह भविष्य में नया संस्करण प्रकाशित करेगा।

प्रस्ताव-121: “प्रारम्भिक IPv6 नियतन” नीति को अपडेट करना

IPv6 नियतन निवेदन मानदण्ड को सर्वसम्मति पर पहुँचने के लिए परिवर्तित करने वाले दो सम्बन्धित प्रस्तावों में से इस पहले प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य डिफ़ॉल्ट (/32) से बड़े नियतन पर है। इस परिवर्तन से निवेदनों को उपभोक्ताओं की संख्या, संस्था की मूलभूत सेवा के विस्तार, संस्था की पदानुक्रमित और भौगोलिक संरचना, सुरक्षा के लिए मूलभूत सुविधा का खण्डीकरण, और नियतन की नियोजित दीर्घायु जैसे कारकों पर विचार करना होगा।

प्रस्ताव-122: “आगे के IPv6 नियतन” की नीति को अपडेट करना

सर्वसम्मति प्राप्त होने वाला, यह प्रस्ताव प्रस्ताव-121 (उपरोक्त) के समान है। यह प्रस्ताव डिफ़ॉल्ट (नियतन से दोगना) से बड़े नियतन के लिए आगे के निवेदनों के लिए निवेदन मानदण्ड को बदलता है। इसके फलस्वरूप आकलन को प्रस्ताव-121 के समान कारकों पर किया जाना संभव होता है। खाता धारकों को फिर भी आगे के नियतन को उचित सिद्ध करने के लिए समान उपयोगी दर पर पहुँचना होगा।

उपयोगी लिंक्स

- नीति चर्चा मेलिंग लिस्ट में सबसक्राइब करें:

- <https://mailman.apnic.net/mailling-lists/sig-policy>
- APNIC 44 नीति पृष्ठ देखें:
 - <https://conference.apnic.net/44/policy>